



Dated: 06 August, 2022

**To,
The General Manager
Department of Corporate Affairs
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001**

Scrip Code: 526871

Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

As per Clause 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed herewith Newspaper publication of the Unaudited Financial Result (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June 2022 which was approved in the Meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Friday, 05th August, 2022, published in "The Financial Express" (English) and "Hari Bhoomi" (Hindi) on Saturday, 06th August, 2022 edition.

You are requested to kindly take note of the same on records.

**Thanking You,
Yours Sincerely,**

For Intec Capital Limited

**Sanjeev Goel
Managing Director
DIN: 00028702**

Encl: As above

INTEC CAPITAL LTD.

CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi – 110019. T +91-11465200/300 F +91-1146522333

www.inteccapital.com

HDFC HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.
Northen Regn. Office : The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marge, New Delhi – 67
 Tel.: 011-41151111, CIN L70100MH1977PLC019916, Website: www.hdfc.com

POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer/s of **Housing Development Finance Corporation Limited**, under Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and /or realisation.

Sr. No.	Name of Borrower (s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) / Loan Account Nos.	Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Date of Possession	Description of Immovable Property (ies) / Secured Asset (s)
1.	MR UMA SHANKAR & MRS NEETU SHARMA	Rs. 24,49,377/- due as on 31-JULY-2020	31-AUG-2020	03-AUG-2022 (PHYSICAL)	PLOT NO-B-527, SECOND FLOOR, LHS, SOUTHERN PORTION, GREEN FIELDS COLONY, SECTOR-B, FARIDABAD, HARYANA AND CONSTRUCTION THEREON PRESENTAND FUTURE
2.	MR LALAN KUMAR CHAUDHARY & MRS LAXMI KUMARI	Rs. 11,99,871/- due as on 30-NOV-2021	29-DEC-2021	04-AUG-2022 (PHYSICAL)	FLAT NO. 11, 2ND FLOOR, BLOCK-C11, LIG, POCKET-4, DDA ROHINI, SECTOR 34, ROHINI, DELHI WITH UNDIVIDED PROPORIONATE SHARE OF LAND UNDERNAETH

*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and /or realisation.

However, since the borrowers / Guarantor(s) / mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer of HDFC have taken **Physical possession** of the immovable properties / secured assets described herein above as mentioned in **serial no. 1 & 2** in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) and Legal Representative(s) mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid Immovable Properties / Secured Assets and any dealings with the said Immovable Property (ies) / Secured Asset(s) will be subject to the mortgage of Housing Development Finance Corporation Ltd.

Borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is/are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Copies of the Panchnama drawn and inventory made are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Guarantor(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) is / are requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: NEW DELHI
Date : 05.08.2022

For Housing Development Finance Corporation Ltd.
 Sd/-
 Authorised Officer

Regd Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate Mumbai-400 020

intec CAPITAL LIMITED
 SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA
 CIN: L74899DL1994PLC057410
 Regd. Off. 708, Manjusha Bldg, 57 Nehru Place, New Delhi – 110019
 T+91-11-46522200/300; F+91-11-46522333 Website: www.intecapital.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022								
(Rs. in lacs except per equity share data)								
Sr. No.	Particulars	Standalone		Consolidated		30.06.2022 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2022 (Audited)
		Quarter Ended	Year ended	Quarter Ended	Year ended			
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (audited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)			
1	Total income from operations	108.94	298.98	229.22	1,088.48	72.57	281.13	196.75
2	Net profit/loss for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(160.90)	(78.56)	(185.12)	(288.70)	(201.25)	(102.44)	(221.88)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(160.90)	584.16	(185.12)	374.02	(201.25)	560.28	(221.88)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(154.75)	573.88	(178.87)	359.10	(195.10)	550.00	(215.63)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(156.52)	564.73	(178.19)	352.01	(196.87)	540.85	(214.95)
6	Paid -up Equity share capital (Face Value Rs. 10/- each)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
7	Earnings as per share (Face Value of Rs. 10/- each) [For continuing and discontinuing operations]							
	1. Basic (in Rs.):	(0.84)	3.13	(0.97)	1.96	(1.06)	3.00	(1.17)
	2. Diluted (in Rs.):	(0.84)	3.13	(0.97)	1.96	(1.06)	3.00	(1.17)

- Notes-**
- (1) The above is an extract of the detailed format of audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and on company's website viz. www.intecapital.com.
- (2) The above financials have been reviewed and recommended by the Audit Committee and subsequently approved and taken on records by the Board of Director at their meetings held on August 05, 2022.
- (3) The said financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (the "Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013.
- (4) Qualification of Statutory Auditor for Standalone results: The Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Company is unable to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks, and has approached these banks for its restructuring / settlement which inter-alia includes waiver / reduction of interest being considered by the respective banks. As the Company is reasonably hopeful of waiver / reduction of the interest under these restructuring / settlement packages, interest of Rs. 2,615.14 lakhs i.e. Rs. 294.34 lakhs for the current quarter ended 30 June, 2022, Rs. 281.00 lakhs and Rs. 1,093.12 lakhs for the previous quarter and year ended 31 March, 2022 respectively, Rs. 302.77 lakhs for the quarter ended 30 June, 2021 and Rs. 1,227.68 lakhs for the period upto 31 March, 2021, though accrued on these loans, has not been provided in these financial results.
- (5) Qualification of Statutory Auditor for Consolidated results: The Parent Company has availed term loans and working capital facilities from various banks, however, slow down of its lending business and increased level of non-performing / impaired loan portfolio, has impacted its cash flow / liquidity, and the Parent Company is unable to service term loans and working capital facilities including interest thereon to certain banks, and has approached these banks for its restructuring / settlement which inter-alia includes waiver / reduction of interest being considered by the respective banks. As the Parent Company is reasonably hopeful of waiver / reduction of the interest under these restructuring / settlement packages, interest of Rs. 2,615.14 lakhs i.e. Rs. 294.34 lakhs for the current quarter ended 30 June, 2022, Rs. 281.00 lakhs and Rs. 1,093.12 lakhs for the previous quarter and year ended 31 March, 2022 respectively, Rs. 302.77 lakhs for the quarter ended 30 June, 2021 and Rs. 1,227.68 lakhs for the period upto 31 March, 2021, though accrued on these loans, has not been provided in these financial results.

For Intec Capital Limited
 Sd/-
Sanjeev Goel
 (Managing Director)
 DIN - 00028702

Place : New Delhi
Date: 05/08/2022

ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED
 Registered Office: 107, BEST SKY TOWER, NETAJI SUBHASH PLACE, PITAMPURA, DELHI – 110034
 OFFICE: 49, UDYOG VIHAR, PHASE-IV, GURUGRAM HARYANA - 122015

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
INSPECTION DATE AND TIME: 16.08.2022 from 9:00 am – 6:00 pm
LAST DATE AND TIME OF SUBMISSION OF EMD AND DOCUMENTS: 22.08.2022 upto 05:00 pm

Sale of immovable property mortgaged under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 (No.54 of 2002)

Whereas, the Authorized Officer of ART Housing Finance (India) Limited had taken possession of the notice issued under Sec 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 in the loan accounts bearing no. LNNS066917-180003012 with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS" for realization of Company's dues. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: <https://globaleaution.com>

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

Name of the Loan Account Holders	Description	Demand Notice Date Outstanding Amount (Secured debt)	Authorized Officer's Details	Earnest Money Deposit (Further referred as "EMD") Submission Account Details	Reserve Price EMD Bid Increase Amount	Date and Time of Auction
a) MANIK ANAND (Borrower) b) VIRENDER ANAND ALIAS VARINDER ANAND (Co-Borrower) c) POONAM (Co-Borrower)	All that part and parcel of the property consisting of Land and Building situated at Entire First Floor Without Roof/Terrace Rights Of Built Up Property Being Q-159/160 Out Of Kharsa No. 101 Situated In Revenue Estate Of Village Bindapur Area Abadi Known As Colony Q-Block, Vikas Vihar Uttam Nagar New Delhi-110059 Area Measuring 105 Sq. Yds (87.50 Sq.Mtr)	Demand Notice – 06.04.2021 Rs. 34,81,888/- as on 02.03.2022 (Interest + expenses exclusive)	Mr. Samay Kochhar, Mobile No. 9971804797 Email Id: samay.kochhar@artfhc.com	Name: ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED Bank Name: HDFC BANK LTD. Account No: 50200049383517 IFSC Code: HDFC0000273 Branch Name: VASANT KUNJ, NEW DELHI	Reserve Price: Rs. 25,00,000/- EMD: Rs. 2,50,000/- Bid Increase Amount: Rs. 10,000/-	23.08.2022 11:00 am to 02:00 pm (With unlimited auto extension clause in case of bid in last 2 minutes before closing, if required)

TERMS & CONDITIONS: The e-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS". 1. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer, there is no encumbrance on any property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/rights/dues affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorized Officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/rights/dues. 2. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property put on auction will be permitted to interested bidders on 16.08.2022 from 9:00 am – 6:00 pm. 3. The interested bidders shall submit their EMD through Web Portal: <https://www.globaleaution.com> (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with <https://www.globaleaution.com>) through Login ID & Password. The EMD shall be payable through NEFT/RTGS in the account mentioned above. After Registration (One Time) by the bidder in the Web Portal, the intending bidder/purchaser is required to get the copies of the following documents uploaded in the Web Portal before the Last Date & Time of submission of the Bid Documents: (i) Copy of the NEFT/RTGS Challan or Demand Draft; (ii) Copy of PAN Card; (iii) Proof of Identification/Address Proof (KYC) viz. self-attested copy of Voter ID Card/Driving License/Passport etc.; without which the Bid is liable to be rejected. UPLOADED SCANNED COPY OF ANNEXURE-II & III (can be downloaded from the Web Portal: <https://www.globaleaution.com>) AFTER DULY FILLED UP & SIGNING IS ALSO REQUIRED. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration on Online Inter-se Bidding etc., may contact M/s. Global E Auction Pvt Ltd, S-10, 1st Floor, Star City, District Centre, Mayur Vihar Phase-I (Ext), Delhi-110096. E-mail Id: operation@global-auction.com, Support Helpline Numbers : 011-47087983 – Sales Enquiries : Ravi Kant Email : operation@global-auction.com Contact No: +919582263207 and for any property related query may contact Authorized Officer: Samay Kochhar, Mobile No. 9971804797 Email Id: samay.kochhar@artfhc.com during the working hours from Monday to Saturday, 4. The interested bidder has to submit their Bid Documents [EMD (not below the Reserve Price) and required documents (mentioned in Point No.3)] on or before 22.08.2022 upto 05:00 pm and after going through the Registering Process (One time) and generating User ID & Password of their own, shall be eligible for participating the e-Auction Process, subject to due verification (of the documents) and/or approval of the Authorized Officer. 5. During the Online Inter-se Bidding, Bidder can improve their Bid Amount as per the "Bid Increase Amount" (mentioned above) or its multiple and in case bid is placed during the last 2 minutes of the closing time of the e-Auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes (each time till the closure of e-Auction process). Otherwise, it'll automatically get closed. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on the closure of the e-Auction Process shall be declared as a Successful Bidder by the Authorized Officer/ Secured Creditor, after required verification. 6. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, within 24 hours of the acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance 75% of the sale price on or before 15th day of sale or within such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. In case of default in payment by the successful bidder, the amount already deposited by the offer shall be liable to be forfeited and property shall be put to re-auction and the defaulting borrower shall have no claim/right in respect of property/amount. 7. The prospective qualified bidders may avail online training on e-Auction from M/s. Global E Auction Pvt Ltd. prior to the date of e-Auction. Neither the Authorized Officer/ Bank nor M/s. Global E Auction Pvt Ltd. shall be liable for any internet Network problem and the interested bidders to ensure that they are technically well equipped for participating in the e-Auction event. 8. The purchaser shall bear the applicable stamp duties/ additional stamp duty/ transfer charges, fee etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, rates, assessment charges, fees etc. owing to anybody. 9. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorized Officer has the absolute right to accept or reject any or all offers or to adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction without assigning any reason thereof. 10. The bidders are advised to go through the detailed Terms & Conditions of e-Auction available on the Web Portal of M/s. Global E Auction Pvt Ltd. <https://www.globaleaution.com> before submitting their bids and taking part in the e-Auction. 11. The publication is subject to the force major clause. **Special Instructions:** Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest as neither the ART Housing Finance (India) Limited nor Service provider will be responsible for any lapse/failure (Internet failure/power failure etc.) in order to ward-off such contingent situations bidders are requested to make all necessary arrangements / alternatives such as power supply back-up etc., so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

The borrower/ co-borrowers are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing which the property will be auctioned/ sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

Place: Delhi **Date: 06.08.2022**

Authorised Officer, ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED

CAN FIN HOMES LTD.
 DDA Building, 1st Floor, Near Paras Cinema, Nehru Place, New Delhi-110019 Ph.: 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108
 Email: delhi@canfinhomes.com CIN : L85110KA1987PLC008699

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 9(1)]
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

SALE NOTICE for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd., NCR-New Delhi, Nehru Place Branch, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 27.08.2022, for recovery of mentioned hereinafter due to Can Fin Homes Ltd. from respective Borrowers and Guarantors as on the respective dates of demand notice, together with further interest and other charges thereon.

S. No.	Name of the Borrowers and Guarantors	Date of Demand Notice	Amount due as per Demand Notice	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Type of Possession	Description of the property
1.	Mr. Rajeev Kumar Jha s/o Ram Sagar Jha, Mrs. Anjeeta w/o Rajeev Kumar Jha, Guarantor: Mr. Dharmendra Kumar Choudhry s/o Jagjevan Choudhry	08-05-2019	Rs. 19,90,769.00	Rs. 14,50,000.00	Rs. 1,45,000.00	Physical	Flat No.- F-1, First Floor, Front Side, Plot No.- B-11/6, DLF Ankur Vihar, Loni, Distt.-Ghaziabad, Uttar Pradesh, Pin-201102 Boundaries- East: Flat No-B-11/7, West: Plot No-B-11/5, North: Road, South: Flat No-F-2 & F-3

For detailed terms and conditions of the sale, provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (www.canfinhomes.com) please refer to the following link <https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx>

DATE: 05.08.2022, PLACE: Nehru Place, New Delhi **Sd/- AUTHORISED OFFICER, CAN FIN HOMES LTD.**

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India
 SADHAURA BRANCH, (DISTT. YAMUNA NAGAR)
 TF# 01735-271971, E-MAIL: sbi.12204@sbi.co.in

POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of STATE BANK OF INDIA, SADHAURA, DISTT. YAMUNA NAGAR under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, have issued Demand Notice, U/s 13(2), calling upon the following Borrowers to repay the amount mentioned in notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and the public in general that the undersigned has taken **SYMBOLIC POSSESSION** of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 & 9 of the said rules.

Name of NPA A/c Borrower and Address	Brief Details of Secured Assets and Name of Owner/Title Holder	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Due as per Notice
M/s Sona Fuels (through its Prop. - Sh. Dharambir Suhag S/o Sh Chatter Singh) Kala Amb Road, Sadhaura. Legal Heirs of Sh. Dharambir Suhag S/o Sh. Chatter Singh, Prop - M/s Sona Fuels, Kala Amb Road, Sadhaura	All that part and parcel of Land and Building of a Flat Bearing No. 106 (1st floor) having covered area admeasuring 124.12 Sq. Meter consisting of Three Bed Rooms, One Drawing Room, One Store Room, One Pooja Room, One Kitchen, Two Toilets and Three Balconies along with One Car Parking (stilt) situated in the Bharti Co-Op. Group Housing Society Limited, Plot No. GH-20, Sector 21-C, Part-III, Faridabad.	28.09.2021	04.08.2022	Rs. 33,25,574/- (Rs. Thirty-Three Lakh Twenty - Five Thousand Five Hundred And Seventy - Four only) as on 22.09.2021 inclusive of interest upto 21.09.2021. Plus, future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc. accrued thereafter.
(1) Ms. Shiny Suhag D/o Sh Dharambir Singh Suhag S/o Sh Chatter Singh (R/o Flat No 106, Bharati Apartments, GH-20, Sector 21-C, Part-III, Faridabad.	No. GH-20, Sector 21-C, Part-III, Faridabad. Owned by Sh. Dharambir Singh Suhag S/o Sh. Chatter Singh vide Sale Deed No. 5295 Dated 06.08.2013 duly Registered in the Office of Joint Sub-Registrar Faridabad and equitable Mortgage to the Bank. Which is bounded as under- East: 20-Meter-Wide Road, West: Plot No. GH-22, North: Plot No. GH-21, South: 12-Meter-Wide Road.			
(2) Ms. Rhea Suhag D/o Sh. Dharambir Singh Suhag S/o Sh. Chatter Singh (R/o Flat No. 106, Bharati Apartments, GH-20, Sector 21-C, Part-III, Faridabad.	(Natural Guardian of Minor) Mr. Karan Suhag S/o Sh. Dharambir Singh Suhag S/o Sh. Chatter Singh (Prop. R/o Flat No. 106, Bharati Apartments, GH-20, Sector 21-C, Part-III, Faridabad. (4) And all other known or unknown legal heirs of deceased Sh. Dharambir Suhag S/o Sh. Chatter Singh, Prop. M/s Sona Fuels, Kala Amb Road, Sadhaura and R/o Flat No. 106, Bharati Apartments, GH-20 Sector 21-C, Part-III, Faridabad.			

The Borrower(s) / Guarantor(s) in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealing with the property/ies will be subject to the charge of STATE BANK OF INDIA, SADHAURA, DISTT. YAMUNA NAGAR for the amounts mentioned herein above, besides interest and other charges / expenses, less repayments, if any, against each account and in case the Borrower(s) / Guarantor(s) do not pay back the dues, the property(ies) shall be sold, as prescribed under the act, to recover Bank's dues. The bank is holding a valid and subsisting security interest over all that part and parcel of ONE CAR MOHINDER SCORPIO SE+H 2WD bearing Registration Number HR-51 BQ-3660 registered with Registering Authority Faridabad on 03.10.2017 in the name of Sh. Dharambir Singh Suhag S/o Sh. Chatter Singh having Engine No.: WGH4F19778, Chassis No.: MA1TA2WGXHZF13810; Make: Mahindra And Mahindra. Hypothecated to the bank duly registered with R.A. Faridabad. Owners / Occupiers of the Property(ies) are also notified to handover Vacant / Actual Physical Possession to the undersigned within 30 Days to avoid use of force U/s 14 of the Act with the assistance of District Magistrate.

Date: 05.08.2022 **Place: Sadhaura (Distt. Yamuna Nagar)** **AUTHORISED OFFICER**

Indian Overseas Bank
 Swastik Vihar Branch, SCO: 25-26, Sector-5, MDC, Panchkula, Haryana-134109
 Ph.: 0172-2557662, E-mail Id: iob1565@iob.in

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE & MOVABLE PROPERTIES (Under Proviso to Rule 8(6) & Rule 6(2) of Security Interest (Enforcement) Rules)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable & Movable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) & Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor (s) that the below described Immovable & Movable property mortgaged /charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Overseas Bank (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 13.09.2022 for recovery of Rs. 32,38,326/- as on 13.12.2019 with further interest & Costs due to the Secured Creditor from:

Mr. Anoop Bhatt & Mrs. Archana Zutshi, R/o Flat No. 255, Trisla Plus Home, Hanogi Tower, Peer Muchala, Zirakpur & Guarantor(s): **Mr. Chetan Patwari** S/o Mr. Tej Krishan Patwari, Emp No. 40241, O/o Tel Bhawan, Plot No. 6A, Sector-19B, Madhya Marg, Chandigarh also at Address # 2423A, Sector-70, SAS Nagar, Mandi Complex, SAS Nagar, Mohali.

PROPERTY DETAILS	RESERVE PRICE	EMD (IN RUPEES)	BID MULTIPLIER	ENCUMBRANCES, IF ANY	INSPECTION OF PROPERTY	DATE & TIME OF E-AUCTION
Flat No. 255, 5th Floor at Trishla Plus Homes, Hanogi Towers, Peer Muchala, Zirakpur, Measuring 1580 Sqft in the complex called Trishla Homes at Peer Muchala, comprising in K/K No. 57/91, Kharsa No. 358 (6-0), 359(4-0), 360(4-0), 361(4-0), 362(3-12), 364(4-0), 365(4-0), 366(4-0), Kite 8, situated at Hadbast No. 53, Village Peer Muchala, Tehsil Dera Bassi, Distt. Mohali, Owned by Mr. Anoop Bhatt & Mrs. Archana Zutshi (under Symbolic Possession). Bounded as: East: Flat No. 261, West: Flat No. 249, North: Open to Sky, South: Passage.	Rs. 48,45,000/-	Rs. 4,84,500/-	Rs. 10,000/-	Not Known	any working day with prior consultation with authorised officer	13.09.2022 between 11.00 AM to 4.00 PM with auto extension of ten minutes each till sale is completed

Submission of online application for bid with EMD 08.08.2022 from 10.00 AM onwards. **Last date for submission of online application for Bid with EMD 12.09.2022 ends @ 5.00 PM.**

Terms and Conditions of E-auction: The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The auction sale will be "online through e-auction" portal <http://www.mstcecommerce.com/>, 2. The intending Bidders/ Purchasers are requested to register on portal (<https://www.mstcauction.com/>) using their mobile number and email-id. Further, they are requested to upload requisite KYC documents. Once the KYC documents are verified by e-auction service provider (may take 2 working days), the Intending Bidders/Purchasers has to transfer the EMD amount using online mode in his Global EMD Wallet by 12.09.2022 before the e-Auction Date and time in the portal. The registration, verification of KYC documents and transfer of EMD in wallet must be completed well in advance, before auction, 3. Earnest Money Deposit (EMD) amount as mentioned above shall be paid online through NEFT/ RTGS (After generation of Challan from <https://www.mstcecommerce.com/>) in bidders Global EMD Wallet. NEFT/RTGS transfer can be done from any Scheduled Commercial Bank. Payment of EMD by any other mode such as Cheques will not be accepted. Bidders, not depositing the required EMD online, will not be allowed to participate in the e-auction. The Earnest Money Deposited shall not bear any interest, 4. Platform (<https://www.mstcecommerce.com/>) for e-Auction will be provided by e Auction service provider M/S MSTC Limited having its Registered office at 225-C, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700020 (contact Phone & Toll free Numbers 033-40645207, 40609118, 40645316, 22831002, 22891401, 22891005, 22901004, 22895064). The intending Bidders/ Purchasers are required to participate in the e-Auction process at e-Auction Service Provider's website <https://www.mstcecommerce.com/>. This Service Provider will also provide online demonstration/ training on e-Auction on the portal, 5. The Sale Notice containing the General Terms and Conditions of Sale is available/ published in the following websites/ web page portal (1) <https://www.ibapi.in/>, (2) <http://www.mstcecommerce.com/>, (3) www.iob.in, 6. The intending participants of e-auction may download free of cost, copies of the Sale Notice, Terms & Conditions of e-auction, Help Manual on operational part of e-Auction related to this e-Auction from e-B – IBAPI portal (<https://www.ibapi.in/>), 7. The intending Bidders / Purchasers are requested to register on portal (<https://www.mstcauction.com/>) using their mobile number and email-id. Further, they will upload the requisite KYC documents (For any help call at 18001025026 or 011-41106131). Once the KYC documents are verified by e-auction service provider (may take 2 working days), the intending Bidders/Purchasers has to transfer the EMD amount using online mode in his Global EMD Wallet. Only after having sufficient EMD in his Wallet, the interested bidder will be able to bid on the date of e-auction, 8. Bidder's Global Wallet should have sufficient balance (>=EMD amount) at the time of bidding, 9. During the e-auction bidders will be allowed to offer higher bid in inter-se bidding over and above the last bid quoted and the minimum increase in the bid amount must be of Rs. 10,000/- to the last higher bid of the bidders. Ten minutes time will be allowed to bidders to quote successive higher bid and if no higher bid is offered by any bidder after the expiry of ten minutes to the last highest bid, the e-auction shall be closed, 10. It is the responsibility of intending Bidder(s) to properly read the Sale Notice, Terms & Conditions of e-auction, Help Manual on operational part of e-Auction and follow them strictly. In case of any difficulty or need of assistance before or during e-Auction process may contact authorized representative of our e-Auction Service Provider (<https://www.mstcecommerce.com/>). Details of which are available on the e-Auction portal, 11. After finalization of e-Auction by the Authorized Officer (Mob.: 7984142260), any successful bidder will be informed by our above referred service provider through SMS/ email. (On mobile no/email address given by them/ registered with the service provider), 12. The secured asset will not be sold below the reserve price, 13. The successful bidder shall have to deposit 25% (twenty five percent) of the bid amount, less EMD amount deposited, on the same day or not later than the next working day and the remaining 75% amount shall be paid within 15 days from the date of auction in the form of Banker's Cheque/ Demand Draft issued by a Scheduled Commercial Bank drawn in favor of Indian Overseas Bank, A/c (Name of the A/C) payable at Chandigarh or through NEFT/RTGS in "IOB e-auction EMD Account", A/C No.028402000012884, IFSC Code: IOBA0000284 with Indian Overseas Bank, Main Branch, Chandigarh, Branch Code: 0284, In case of failure to deposit the amounts as above within the stipulated time, the amount deposited by successful bidder will be forfeited to the Bank and Authorized Officer shall have the liberty to conduct a fresh auction/ sale of the property & the defaulting bidder shall not have any claim over the forfeited amount and the property, 14. Payment of sale consideration by the successful bidder to the bank will be subject to TDS under Section 194- 1A of Income Tax Act 1961 and TDS is to be made by the successful bidder only at the time of deposit of remaining 75 % of the bid amount/full deposit of BID amount, 15. The Authorized Officer reserves the right to accept any or reject all bids, if not found acceptable or to postpone/cancel/adjourn/discontinue or vary the terms of the auction at any time without assigning any reason whatsoever and his decision in this regard shall be final, 16. The sale certificate shall be issued in the favour of successful bidder on deposit of full bid amount as per the provisions of the act, 17. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS", 18. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorized Officer, but the Authorized Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation, 19. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The bidder inspect the property in consultation with the dealing official as per the details provided, 20. All statutory dues/attendances/charges/other dues including registration charges, stamp duty, taxes etc. shall have to be borne by the purchaser, 21. The Authorized Officer or the Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of properties (E-Auctioned) not known to the bank. The Intending Bidder is advised to make their

डॉक्टरों ने ‘चीनी मांझे’ के खतरे के प्रति किया आगाह, दो घायल मरीजों की हुई सर्जरी

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार को ‘चीनी मांझे’ के संभावित खतरों के प्रति आगाह किया। उन्होंने दो महिला मरीजों का उदाहरण दिया, जो सड़क पर दुर्घटनावाश चीनी मांझे की चपेट में आने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गई थीं और जिनकी जान बचाने के लिए हाल ही में सर्जरी की गई। इनमें से एक विद्यावती (61) पूर्वी दिल्ली में दौपहिया वाहन चला रही थीं, तभी उन्हें अपने गले पर चीनी मांझा महसूस हुआ। विद्यावती की सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बताया कि चीनी मांझे से हुआ जख्म इतना गहरा था, मानो उनका गला चाकू से रेंता गया हो। पटपड़गंज स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा



आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में विद्यावती के साथ जीवनरक्षक सर्जरी से गुजरने वाली दूसरी मरीज उषा रंजन (54) ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस सम्मेलन को डॉ. मनोज के जौहर ने भी संबोधित

किया, जिन्होंने दोनों महिलाओं की सर्जरी करने वाली चिकित्सकीय टीम का नेतृत्व किया था। चीनी मांझे के खतरों को रेखांकित करने के साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद बड़े पैमाने

पर हो रही इनकी कथित बिक्री पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टरों ने बताया कि विद्यावती जब दौपहिया चला रही थीं, तब उन्हें अपनी गर्दन पर एक धागा महसूस हुआ और अगले ही पल वह असहनीय दर्द से कराह उठीं और काफी तेज खून भी बहने लगा। अस्पताल ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि कुछ राहगीर और पुलिस कर्मी विद्यावती की मदद को आगे आए। वे उन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि उनकी गर्दन पर गहरा जख्म हुआ है। विद्यावती को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्हें पटपड़गंज स्थित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. जौहर ने कहा कि विद्यावती की

गर्दन पर गहरा जख्म था। भारी मात्रा में खून बह जाने के कारण उनकी हालत बेहद नाजुक थी।

विद्यावती की गर्दन इस कदर जख्मी हुई थी कि उनकी तुरंत आपातकाल जीवनरक्षक सर्जरी करने की जरूरत थी। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं और मांसपेशियों की सर्जरी के बाद विद्यावती की गर्दन सिलते हुए उनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई। वह शारीरिक रूप से ठीक हो रही हैं, लेकिन मानसिक रूप से इस हादसे के दर्द से उबरने में उन्हें समय लगेगा। डॉक्टरों के मुताबिक, ठीक होने के बावजूद विद्यावती को ऐसे हादसे के दोबारा होने का डर है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से ‘चीनी मांझे’ की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पतंग उड़ाने पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह सांस्कृतिक गतिविधि है। अदालत ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले चीनी सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर राष्ट्रीय हरित व्यापारिकरण (एनजीटी) के प्रतिबंध आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि एनजीटी ने चीनी सिंथेटिक मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध पहले से ही लगा रखा है और यहां तक कि दिल्ली पुलिस भी इस बाबत अधिसूचना जारी कर रही है। अधिकारियों का कहना था कि शीशे के लेप वाले धागों के कारण मनुष्य एवं पक्षी भी घायल होते हैं या मारे जाते हैं। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि पतंग उड़ाने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि यह ‘सांस्कृतिक गतिविधि’ है और इसे ‘धार्मिक गतिविधि’ से जोड़कर भी देखा जाता है। अदालत ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे चीनी मांझे के इस्तेमाल और बिक्री को लेकर एनजीटी के आदेश पर अमल सुनिश्चित करें। दिल्ली पुलिस के वकील संजय लाव ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार ने पहले ही एक अधिसूचना जारी की है कि चीनी मांझा 2017 से ही प्रतिबंधित है और इसके उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 255 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस उपप्रावत चीनी मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित दूसरा आदेश भी जारी करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकन शर्मा एवं सरकारी वकील अनिल सेनी ने कहा कि पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य जुड़े हैं।



खबर संक्षेप



सीएम केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर दी बधाई

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को पदभार ग्रहण किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

रामलीला कमेटी के लोगों को विभागों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं: गुप्ता

नई दिल्ली। अब रामलीला कमेटी के लोगों को किसी भी विभाग में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आसानी से ही कार्य हो जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलने के बाद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद प्रवेश साहिब सिंह के साथ एक संयुक्त प्रेसवार्ता के दौरान यह बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान पर उपराज्यपाल का आभार का जताया।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने देखा दिल्ली महिला आयोग का कामकाज नई दिल्ली। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और किंक्स कॉलेज लंदन में शिक्षाविद् और प्रोफेसर एलिस इवॉस ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) का दौरा किया। डीसीडब्ल्यू के कामकाज के बारे में सुनने के बाद उन्होंने आयोग के काम का अध्ययन करने के लिए इसके कार्यालय का दौरा किया था।

मोंटेनेग्रो वाणिज्य दूतावास की पानी नहीं मिलने की शिकायत पर एलजी ने केजरीवाल को दी नसीहत

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए जलापूर्ति सुधारने के निर्देश दिए हैं। मोंटेनेग्रो कांसुलेट (वाणिज्य दूतावास) द्वारा दो दिन से जलापूर्ति नहीं होने की शिकायत पर उपराज्यपाल ने शुक्रवार को तुरंत एक्शन लेते हुए केजरीवाल सरकार को नसीहत दी कि ऐसी घटनाओं से देश का नाम बदनमा होता है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि इस तरह के मुद्दों को देखें जो दुनिया में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। दूतावास की शिकायत पर उपराज्यपाल ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। राज निवास से मिली जानकारी के अनुसार मोंटेनेग्रो के कांसुलेट से पानी की आपूर्ति नहीं होने और आपातकाल में टैंकर भी नहीं मिलने की शिकायत मिली। शिकायत में यह भी लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड से कम प्रेशर पर गंद पानी मिल रहा था। वहीं मोंटेनेग्रो वाणिज्य दूतावास द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है, हम आपसे विभिन्न निवेदन कर रहे हैं, दो दिनों

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

पूर्वी जिले की साइबर पुलिस टीम ने एक नाबालिग समेत पांच जालसाजों को पकड़ा है। इनमें एक जालसाज गुजरात पुलिस का भी वांछित था। दो आरोपी समाचार चैनलों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। एक नाबालिग आरोपी भी साथी के साथ पकड़ा गया है जिसने एक महिला के खाते से धोखाधड़ी के जरिये करीब साढ़े तीन लाख रुपये निकाले थे। इसके पास से ठगी की रकम से खरीदा गया आई फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खाते में जमा 55 हजार रुपये फ्रीज भी करवाये हैं।

डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि तीन अलग अलग मामलों में पांच जालसाजों को पकड़ा गया है। पहला मामला साइबर पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। 23 जुलाई को धोखाधड़ी के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। नौकरी दिलाने के बहाने 60 हजार रुपए ठगे गये थे। उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज

खास बात
■ पूर्वी जिले के साइबर पुलिस थाने की कार्रवाई



किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान, तकनीकी निगरानी व बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया गया। पता चला कि आरोपी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में स्थित थे। टेक्नीकल सर्विलांस की मदद से दो व्यक्तियों को

गिरफ्तार किया गया। आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। ये लोगों से पांच हजार से 60-70 हजार रुपये तक बतौर कमीशन वसूलते थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विशाल निवासी जनता फ्लैट दिलशाद गार्डन,

दिल्ली और अरबाज खान निवासी शहीद नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद है। विशाल समाचार रिपोर्टर और जॉब प्लेसमेंट एजेंट के रूप में प्रमुख समाचार चैनलों में नौकरी प्रदान करने का दावा करता था। जबकि अरबाज पहले

महिला से की थी साढ़े तीन लाख की ठगी

दूसरे मामले में भी साइबर पुलिस टीम ने एक आरोपी नवीन निवासी पांडव नगर को गिरफ्तार किया। जो एक महिला के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल था। इसने उसके खाते से 3,44,000 रुपये निकाल लिये थे। 3 अगस्त को इसे लेकर साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था। इस केस में आरोपी का एक नाबालिग साथी भी पकड़ा गया है।

गुजरात पुलिस का था वांछित

तीसरे मामले में 4 अगस्त को साइबर पुलिस टीम ने अकिंत नाम के शख्स को अरेस्ट किया। वह व्युक्त नगर, दिल्ली का रहने वाला है। वह अपराध शाखा, सुरत, गुजरात का भी वांछित था। आरोपी को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया गया।

डेली सोप में काम करता था, लेकिन वर्तमान में वह एक समाचार रिपोर्टर और जॉब प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम कर रहा था।

शराब के रुपए नहीं देने पर दोस्त का गला रेतने वाला गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ नई दिल्ली

मध्य जिले के आईपी एस्टेट थाना इलाके में शराब के रुपए को लेकर हुये विवाद पर दोस्त का गला काटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम विक्रान्त उर्फ चेला (35) बताया गया है। वह मूलरूप से बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर भी बरामद कर लिया है। आरोपी हत्या के एक मामले में पिछले साल ही मई में प्यैल पर जेल से बाहर आया था। उसे इस केस में उग्र कैद की सजा भी मिल चुकी थी।

पुलिस के मुताबिक तीन अगस्त को वारदात की सूचना मिली थी। पुलिस तकिया काले खां इलाके में

हत्या के केस में 2009 से था बंद

आरोपी मर्डर केस में साल 2009 से बंद था। इसे मामले में दोषी करार दिया जा चुका था। वह तिहाड़ जेल में ही बारवहीं तक पड़ा है। आरोपी के परिजन बिहार में रहते हैं। जबकि उसका एक भाई नौएडा में डाटा एंट्री ऑपरेट के तौर पर कार्यरत है।

हत्या के केस में 2009 से था बंद

आरोपी मर्डर केस में साल 2009 से बंद था। इसे मामले में दोषी करार दिया जा चुका था। वह तिहाड़ जेल में ही बारवहीं तक पड़ा है। आरोपी के परिजन बिहार में रहते हैं। जबकि उसका एक भाई नौएडा में डाटा एंट्री ऑपरेट के तौर पर कार्यरत है।

पहुंची जहां एक शख्स को चाकू मारा गया था। घायल को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया था। उसका नाम अब्दुल्ला उर्फ बाबू (35) पता चला। पीड़ित के गले की बांधी तरफ धारदार चीज से वार किया गया था। पुलिस को जांच में पता चला घायल पर हमला उसी के दोस्त विक्रान्त ने

किया है। आईपी एस्टेट पुलिस ने इस बाबत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई और विक्रान्त को सिमनेचर ब्रिज के पास यमुना खादर इलाके से पकड़ लिया गया। इसके पास से पेपर कटर भी बरामद हो गया है।

इंटेक कैपिटल लिमिटेड									
SAPNE AAPKE, BHAROSA APNO KA									
इंटेक कैपिटल लिमिटेड									
CIN: L74899DL1994PLC057410									
पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा विलिडिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019									
T+91-11-46522200/300; F+91-1146522333 Website: www.inteccapital.com									
30 जून 2022 को समाप्त तिमाही हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण									
(प्रति इन्विट्री शेयर डेटा को छोड़कर रु. लाखों में)									
क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन				समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही
		30.06.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2022 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)	30.06.2021 (अंकेक्षित)	31.03.2022 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	108.94	298.98	229.22	1,088.48	72.67	281.13	196.75	972.51
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/हानि (कर, असाधारण और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(160.90)	(78.56)	(185.12)	(288.70)	(201.25)	(102.44)	(221.88)	(420.64)
3	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(160.90)	584.16	(185.12)	374.02	(201.25)	560.28	(221.88)	242.08
4	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(154.75)	573.88	(178.87)	359.10	(195.10)	550.00	(215.63)	227.16
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(156.52)	564.73	(178.19)	352.01	(196.87)	540.85	(214.95)	220.07
6	भुगतान किया गया इन्विट्री शेयर कैपिटल (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63	1,836.63
7	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्यक्ष मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) {निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु}								
	1. बेसिक (रु. में) :	(0.84)	3.13	(0.97)	1.96	(1.06)	3.00	(1.17)	1.24
	2. डायल्यूटेड (रु. में) :	(0.84)	3.13	(0.97)	1.96	(1.06)	3.00	(1.17)	1.24
टिप्पणियाँ :-									
(1) उपरोक्त वेबी (शिरिंग ऑनलाइन) एवं घोषणा आवश्यकताएं नियमों 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये गये अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स अर्थात www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.inteccapital.com पर उपलब्ध है।									
(2) उपरोक्त फाइनेंशियल की समीक्षा कर ली गई है और ऑडिट कमेटी द्वारा अनुशंसित कर दिये गये तथा वदोपरांत 05 अगस्त 2022 को आयोजित उनकी बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये और तिकाई पर लिये गये।									
(3) कम्पनी के उक्त वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (the "Ind AS") के अनुसार तैयार किये गये हैं।									
(4) स्टैंडअलोन परिणामों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की योग्यता : कम्पनी विभिन्न बैंकों से सावधि ऋण और कार्य पूंजी सुविधाओं का लाभ उठा चुकी है, यद्यपि, इसके उधार देने के बिजनेस योजना होने के कारण और नॉन-परफार्मिंग/क्षतिग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते स्तर का प्रभाव इसके नकद फ्लो/लिक्विडिटी पर पड़ चुका है, और कम्पनी सावधि ऋणों और कार्य पूंजी सुविधाओं समेत कुछ बैंकों से उस पर व्याज की तामील करने में अक्षम हैं, और इसके रिस्ट्रक्चरिंग/रीटर्नमेंट हेतु इन बैंकों के पास सम्यक् कर चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित बैंकों द्वारा विचार किये जा रहे व्याज की छूट / कमी शामिल है। चूंकि कम्पनी इन रिस्ट्रक्चरिंग/रीटर्नमेंट बैंकेज के तहत व्याज की छूट / कमी के लिये उपयुक्त रूप से आशापूर्ण हैं, रु. 2,615.14 लाख का व्याज अर्थात 30 जून 2022 को समाप्त वर्तमान तिमाही हेतु रु. 294.34 लाख, 31 मार्च 2022 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही और वर्ष हेतु रु. 281.00 लाख और रु. 1,093.12 लाख क्रमशः, 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 302.77 लाख और 31 मार्च 2021 तक अवधि हेतु रु. 1,227.68 लाख, यद्यपि इन ऋणों पर उपाजित, इन वित्तीय परिणामों में उपलब्ध नहीं करवाया गया है।									
(5) समेकित परिणामों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की योग्यता : पैरेंट कम्पनी विभिन्न बैंकों से सावधि ऋण और कार्य पूंजी का लाभ उठा चुकी है, यद्यपि इसके उधार देने के बिजनेस योजना होने के कारण और नॉन-परफार्मिंग/क्षतिग्रस्त ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ते स्तर का प्रभाव इसके नकद फ्लो/लिक्विडिटी पर पड़ चुका है, और पैरेंट कम्पनी सावधि ऋणों और कार्य पूंजी सुविधाओं समेत कुछ बैंकों से उस पर व्याज की तामील करने में अक्षम हैं, और इसके रिस्ट्रक्चरिंग/रीटर्नमेंट हेतु इन बैंकों के पास सम्यक् कर चुकी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्बन्धित बैंकों द्वारा विचार किये जा रहे व्याज की छूट / कमी शामिल है। चूंकि पैरेंट कम्पनी इन रिस्ट्रक्चरिंग/रीटर्नमेंट बैंकेज के तहत व्याज की छूट / कमी के लिये उपयुक्त रूप से आशापूर्ण हैं, रु. 2,615.14 लाख का व्याज अर्थात 30 जून 2022 को समाप्त वर्तमान तिमाही हेतु रु. 294.34 लाख, 31 मार्च 2022 को समाप्त पूर्ववर्ती तिमाही और वर्ष हेतु रु. 281.00 लाख और रु. 1,093.12 लाख क्रमशः, 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 302.77 लाख और 31 मार्च 2021 तक अवधि हेतु रु. 1,227.68 लाख, यद्यपि इन ऋणों पर उपाजित, इन वित्तीय परिणामों में उपलब्ध नहीं करवाया गया है।									
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 05.08.2022									